

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय-3 , रावतभाटा

तृतीय आवधिक प्रश्न-पत्र (2018-19)

कक्षा- नवीं

विषय- हिन्दी

पूर्णांक- 40

प्रश्न-1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गये प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए - 5

लोकसेवा से जहाँ समाज का हित होता है, वहाँ मानव का व्यक्तित्व उभरता है। जो निस्वार्थ भाव से दीन-दुखियों की सेवा करते हैं, वे ही लोकप्रिय बनते हैं। महात्मा ईसा ने कहा है कि महान वही व्यक्ति होता है, जो समाज का महान सेवक होता है। व्यक्ति समाज के लिए आत्म-बलिदान करता है, समाज उसे अमर बना देता है। लोकसेवा से मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा पूर्ण होती है, वह है- यश एवं कीर्ति का उपार्जन। इसके प्राप्त होने पर मानव कीर्तिमान और अमर होता है।

एक बार महर्षि दधिची प्रार्थना कर रहे थे- "हे ईश्वर, तू मुझे ऐसे स्थान पर मृत्यु दे, जहाँ मनुष्य सरलता से नहीं पहुँच सके, जिससे कि मेरा शरीर जंगली पशु-पक्षियों का आहार बन सके। मैं अपने जीवनकाल में किसी का उपकार नहीं कर सका, तो मरने पर चिल-कौओं का आहार बन सकूँ।" वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय कुछ देवता उनके पास आए और महर्षि से कुछ माँगा। ऋषि ने उत्तर दिया-"अगर मेरे शरीर से आप लोगों का कुछ हित हो सकता है, तो मैं उसे देने को सहर्ष तैयार हूँ। देवताओं ने उसके शरीर की हड्डियाँ मांग ली, ताकि उनसे वज्र बनाकर असुरों का संहार कर सकें और प्रजा को असुरों के अत्याचारों से मुक्त कर सकें। ऋषि ने तुरन्त प्राण त्याग दिए और देवता उनके अस्थिपंजर को ले गये।

- लोकप्रिय बनने का आधार क्या है?
- लोकसेवा से कौनसी आकांक्षा पूर्ण होती है?
- महर्षि दधिची क्या प्रार्थना कर रहे थे?
- देवताओं ने महर्षि से क्या माँगा?
- देवताओं ने उनसे प्राप्त वस्तु का क्या उपयोग किया?

प्रश्न- 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए-

5 x 3 = 15

- 'प्रेमचन्द के फटे जूते' पाठ में लेखक ने किस विचारधारा पर व्यंग्य किया है? कैसे? समझाइए।
- जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक सम्बन्धों को लेखिका ने आज के सन्दर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है?
- 'मेरे बचपन के दिन' पाठ के आधार पर तात्कालिक और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।
- 'मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए?
- कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है?

प्रश्न- 3. 'माटी वाली' पाठ के आधार पर विस्थापन की समस्या के कारण बताते हुए, इसके समाधान के सन्दर्भ में अपने विचार लिखिए।

4 अंक

प्रश्न.4. पेयजल की समस्या के बारे में बताते हुए एवं कॉलोनी में पेयजल की सुचारू रूप से व्यवस्था करवाने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद को पत्र लिखिए।

अंक - 6

अथवा

आपके भाई की बोर्ड की परीक्षा मार्च में होने वाली है। इस सन्दर्भ में अपने भाई का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए, परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ देते हुए पत्र लिखिए।

प्रश्न-5. निम्नलिखित उपसर्ग/ प्रत्यय की सहायता से दो-दो शब्द लिखिए-

4

उपसर्ग- अन, अ, स्व, सत्

प्रत्यय - हार, अनीय, दार, वाला

प्रश्न-6. यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर बताते हुए एक-एक उदाहरण लिखिए।

4

प्रश्न- 7. समास किसे कहते हैं? और कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए।

2